

📢 कटौती प्राप्तकर्ताओं (Deductees) ध्यान दें : TDS/TCS में समय पर सुधार क्यों ज़रूरी है

🔹 क्या बदला है?

- आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3)(f) के तहत कटौतीकर्ता (नियोक्ता, कंपनियाँ, विक्रेता आदि) को TDS/TCS विवरणियों में त्रुटियाँ सुधारने की समय-सीमा घटाकर **2 वर्ष** कर दी गई है।
- यदि कटौतीकर्ता इस कम समय-सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो वे त्रुटियाँ **स्थायी रूप से बिना सुधार के रह सकती हैं।**

🔹 इसका आपके लिए क्या मतलब है

यदि आपका कटौतीकर्ता समय पर संशोधन विवरणी दाखिल नहीं करता है:

✗ Form 26AS / AIS में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा

आपके वेतन, पेशेवर शुल्क या विक्रेता भुगतान से कटा हुआ कर आपके आयकर रिकॉर्ड में सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो सकता।

✗ आयकर रिटर्न (ITR) में असंगति (Mismatch)

रिटर्न दाखिल करते समय आपको अधिक कर देयता दिखाई दे सकती है क्योंकि कटा हुआ कर आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा।

✗ रिफंड में देरी या रिफंड का नुकसान

यदि TDS डेटा गायब या गलत है, तो रिफंड में देरी हो सकती है, राशि कम हो सकती है या रिफंड अस्वीकृत भी हो सकता है।

✗ अनावश्यक नोटिस या जाँच (Scrutiny)

जबकि आपसे कर काट लिया गया है, फिर भी आपको स्पष्टीकरण या भुगतान के लिए आयकर नोटिस मिल सकता है।

✗ तनाव और वित्तीय असुविधा

आपको अपने नियोक्ता/विक्रेता के पीछे लगातार लगना पड़ सकता है और विवाद सुलझाने में समय लग सकता है।

🔹 अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें

- ✓ अपने Form 26AS और AIS को नियमित रूप से जाँचें कि सभी TDS/TCS सही तरह से दर्शाया गया है।
 - ✓ किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत अपने कटौतीकर्ता को सूचित करें।
 - ✓ TDS कटौती का प्रमाण सुरक्षित रखें (वेतन पर्ची, बिल, चालान आदि)।
 - ✓ समस्या हल न होने पर TRACES / आयकर पोर्टल के माध्यम से शीघ्र शिकायत दर्ज करें।
- आपका टैक्स क्रेडिट आपके कटौतीकर्ता के समय पर अनुपालन पर निर्भर करता है।
 - कटौतीकर्ता द्वारा की गई देरी सीधे आपके रिफंड, कर देयता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है।
 - सतर्क रहें: अपने कर विवरणों की निगरानी करें और समस्याएँ तुरंत उठाएँ।